




The prostate is a gland that only men have. It is about the size of a walnut and sits below the neck of the bladder, surrounding the bladder outlet (the urethra). The prostate makes a milky fluid, which is part of semen and feeds the sperm.

As men age, the prostate gland gets bigger. This happens over many years and for some men this can cause bladder problems.


Poor bladder control can also happen due to other health issues. Men with poor bladder control can be upset and embarrassed by this problem. If you have changes in your bladder control, or concerns about your prostate gland, talk to your doctor or continence advisor.



प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में ही होती है। यह एक अखरोट के आकार के बराबर होता है और यह मूत्राशय की ग्रीवा के नीचे मूत्राशय के निकास (मूत्रमार्ग) के इर्द-गिर्द मौजूद होता है। प्रोस्टेट एक दूधिया तरल पदार्थ बनाता है, जो वीर्य का एक अंश होता है और शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में काम करता है।

पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता जाता है। यह कई वर्षों की अवधि के दौरान होता है और कुछ पुरुषों के लिए यह मूत्राशय की समस्याएँ पैदा कर सकता है।

मूत्राशय पर खराब नियंत्रण अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से भी हो सकता है। मूत्राशय के खराब नियंत्रण से ग्रस्त पुरुष इस समस्या से परेशान और शर्मिंदा हो सकते हैं। यदि आपकी मूत्राशय नियंत्रण क्षमता में कोई परिवर्तन होता है, या आप अपनी प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर या कॉन्टिनेंस सलाहकार से बात करें।



WHAT ARE SOME COMMON PROSTATE PROBLEMS?

- Prostatitis is swelling** and soreness of the prostate gland and may be due to a bladder infection. It is more common in young men.
- Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is when** the prostate gets gradually larger, usually starting in middle age. About one in four men will need surgery for this problem (BPH does not lead to cancer).
- Prostate Cancer is often found** before you have any warning signs. Your doctor may find it with a blood test (called a PSA) and a check of your prostate. It is the most common cancer in men, and you are more likely to get it as you age. However it is one of the most readily treated cancers.

कुछ आम प्रोस्टेट समस्याएँ क्या हैं?

- प्रोस्टेटाइटिस (Prostatitis)** में प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन और पीड़ा होती है और यह मूत्राशय के संक्रमण के कारण हो सकता है। यह युवा पुरुषों में ज्यादा आम होता है।
- बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया [Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)]** आम-तौर पर मध्य-जीवन की आयु में प्रोस्टेट के आकार में धीरे-धीरे होने वाली वृद्धि को कहते हैं। लगभग चार में से एक पुरुष को इस समस्या के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है (BPH से कैंसर नहीं होता है)।
- प्रोस्टेट कैंसर अक्सर** बिना किसी चेतावनी के संकेतों के पाया जाता है। आपका डॉक्टर इसका पता एक रक्त-परीक्षण (जिसे PSA कहा जाता है) और आपके प्रोस्टेट की जाँच करने के माध्यम से कर सकता है। यह पुरुषों में सबसे आम तरह का कैंसर है, और आपको इससे ग्रस्त होने की संभावना उम्र के साथ-साथ बढ़ती जाती है। परंतु यह सबसे अधिक आसानी से उपचार किए जाने वाले कैंसरों में से एक है।





HOW DO I KNOW IF I HAVE A PROSTATE PROBLEM?

If you have one or more of these issues, you may have a prostate problem:

- trouble starting the flow of urine;
- slow urine stream once started;
- needing to pass urine more often through the day or night;
- leaking after passing urine, or between visits to the toilet;
- needing to pass urine again soon after going to the toilet;
- feeling an urgent need to pass urine;
- burning or pain when passing urine;
- blood in urine; and
- feeling that the bladder is not fully empty after going to the toilet.

Some of these problems may not be due to the prostate. For instance, some medicines may cause the bladder to store up urine. Your doctor or continence advisor can help you find the cause of your problem.

HOW CAN MY PROSTATE CAUSE BLADDER PROBLEMS

Blocking of the urethra (the urine tube): As the prostate grows larger, it may block the bladder outlet and stop the bladder from emptying. In some cases, urine may get stored up until it starts to leak out. If this happens, see a doctor straight away.

An overactive bladder can be caused by the bladder working extra hard to get past a blockage. An overactive bladder can tighten without your control, causing an urgent need to pass urine. After surgery to ease the blockage you may still have an urgent need to pass urine, and it could get worse for a few weeks, until the bladder goes back to normal.

मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रोस्टेट की समस्या है?

यदि आप इन मुद्दों में से एक या एक से अधिक मुद्दे से ग्रस्त हैं, तो आपको प्रोस्टेट समस्या हो सकती है:

- मूत्र का प्रवाह शुरू करने में कठिनाई होना;
- एक बार शुरू कर देने के बाद धीमी मूत्र-धारा निकलना;
- दिन या रात में बहुत अधिक बार मूत्र-त्याग करने की आवश्यकता होना;
- मूत्र-त्याग के बाद या शौचालय जाने के बीच रिसाव होना;
- शौचालय जाने के जल्द बाद ही फिर से मूत्र-त्याग करने की आवश्यकता होना;
- मूत्र-त्याग करने के लिए तत्काल आवश्यकता महसूस करना;
- मूत्र-त्याग करते समय जलन या पीड़ा होना;
- मूत्र में रक्त निकलना; और
- शौचालय जाने के बाद भी मूत्राशय के पूरी तरह से खाली न होने का अहसास होना।

हो सकता है कि इन समस्याओं में से कुछ समस्याएँ प्रोस्टेट के कारण न हों। उदाहरण के लिए, कुछ दवाइयाँ मूत्राशय में मूत्र को जमा करने का कारण हो सकती हैं। आपका डॉक्टर या कॉन्टिनेंस सलाहकार आपकी अपनी समस्या के कारणों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं।

मेरे प्रोस्टेट से मूत्राशय की समस्याएँ कैसे पैदा हो सकती हैं

मूत्रमार्ग (मूत्र नली) का अवरोधन: जैसे-जैसे प्रोस्टेट बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वह मूत्राशय के निकास को अवरुद्ध करता जाता है मूत्राशय को खाली होने से रोकता है। कुछ मामलों में मूत्र तब तक जमा हो सकती है जब तक कि यह रिसना शुरू न कर दे। यदि ऐसा होता है, तो तुरंत एक डॉक्टर से मिलें।

अवरोध का सामना करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने वाला मूत्राशय एक **अतिसक्रिय मूत्राशय** हो सकता है। एक अतिसक्रिय मूत्राशय बिना आपके नियंत्रण के कस सकता है, जिससे कि आपको मूत्र-त्याग करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हो सकती है। अवरोध को कम करने के लिए सर्जरी के बाद भी आपको मूत्र-त्याग करने की तत्काल आवश्यकता हो सकती है, और मूत्राशय के वापस सामान्य कार्य करने से पहले कुछ सप्ताहों के लिए स्थिति और खराब हो सकती है।





Surgery for prostate problems can damage the muscle and nerves of the bladder outlet in a few cases. This can cause poor bladder control. If it occurs it is almost always short-lived, though major surgery for prostate cancer can lead to long term bladder control problems.

HOW CAN POOR BLADDER CONTROL BE TREATED?

First, your doctor or continence advisor will want to look for the causes of your poor bladder control, such as prostate disease, infection, diabetes or some medicines.

There are a few ways that poor bladder control due to prostate disease can be treated.

1. Check up with your doctor

After a talk with your doctor, you may feel that you do not need any treatment. Poor bladder control can get better with time, or with simple changes to your daily habits (See the leaflet "Good Bladder Habits for Everyone").

2. Medicines

There are a number of medicines that can help with bladder control. Ask your doctor about these.

3. Prostate Surgery

If your prostate is the problem, then surgery can remove all or part of the gland. The type of surgery will depend on the size of the prostate gland.

4. Bladder Training

A program of bladder training can help the bladder to hold more urine without leaks or urgent feelings, even for those with an overactive bladder.

5. Pelvic Floor Muscle Training

Pelvic floor muscle training builds up the muscles that control how well the bladder and bowel work. Learn how to train your muscles before surgery and start as soon as you can after surgery (See the leaflet "Pelvic Floor Muscle Training for Men").

कुछ मामलों में प्रोस्टेट समस्याओं के लिए सर्जरी मूत्राशय के निकास की माँस-पेशियों और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुँचा सकती है। इससे मूत्राशय नियंत्रण खराब हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह बहुत कम अवधि के लिए ही होगा, हालाँकि प्रोस्टेट कैंसर के लिए बड़ी सर्जरी मूत्राशय नियंत्रण की दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकती है।

खराब मूत्राशय नियंत्रण का उपचार कैसे किया जा सकता है?

सबसे पहले आपका डॉक्टर या कॉन्टिनेंस सलाहकार आपके खराब मूत्राशय नियंत्रण का कारण पता करना चाहेगा, जैसेकि प्रोस्टेट-रोग, संक्रमण, डायबेटीज़ या कुछ दवाइयाँ।

ऐसे कुछ तरीके मौजूद हैं जिनसे प्रोस्टेट-रोग के कारण खराब मूत्राशय नियंत्रण का इलाज किया जा सकता है।

1. अपने चिकित्सक के साथ जाँच

अपने डॉक्टर से बात करने के बाद हो सकता है कि आपको लगे कि आपको किसी भी उपचार की ज़रूरत नहीं है। खराब मूत्राशय नियंत्रण समय के साथ या अपनी दैनिक आदतों में साधारण से परिवर्तनों के साथ बेहतर हो सकता है (पत्रक "हर किसी के लिए अच्छी मूत्राशय आदतें" देखें)।

2. दवाइयाँ

मूत्राशय पर नियंत्रण के लिए कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इनके बारे में अपने चिकित्सक से पूछें।

3. प्रोस्टेट सर्जरी

यदि आपका प्रोस्टेट ही समस्या है, तो सर्जरी के माध्यम से पूरी ग्रंथि या इसके एक भाग को निकाला जा सकता है। सर्जरी का प्रकार प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार पर निर्भर करेगा।

4. मूत्राशय प्रशिक्षण

एक मूत्राशय प्रशिक्षण कार्यक्रम रिसावों या मूत्र-त्याग करने की तत्काल भावना के बिना अधिक मूत्र जमा करने में मूत्राशय की मदद कर सकता है, यहाँ तक कि अतिसक्रिय मूत्राशय वाले लोगों के लिए भी।

5. पेल्विक फ्लोर माँस-पेशी प्रशिक्षण

पेल्विक फ्लोर माँस-पेशी प्रशिक्षण उन माँस-पेशियों को मजबूत बनाता है, जो मूत्राशय और आंत्र के अच्छी तरह से कार्य करने को नियंत्रित करती हैं। सर्जरी से पहले अपनी माँस-पेशियों को प्रशिक्षित करने और सर्जरी के बाद जल्दी से जल्दी प्रशिक्षण शुरू करना सीखें (पत्रक "पुरुषों के लिए पेल्विक फ्लोर माँस-पेशी प्रशिक्षण" देखें)।





6. Continence Products

There is a wide range of continence products to help cope with urine leaks (See the leaflet "Continence Products").

Make sure you know enough about what the problem is, what treatments there are, how well they work, and what might go wrong, so that you can choose the treatment that is best for you, with your doctor's help.

SEEK HELP

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

- Information;
- Advice; and
- Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/other-languages

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

6. कॉन्टिनेंस उत्पाद

मूत्र रिसाव से निपटने में मदद करने के लिए अनेकानेक कॉन्टिनेंस उत्पाद उपलब्ध हैं (पत्रक "कॉन्टिनेंस उत्पाद" देखें)।

यह सुनिश्चित करें कि आप इस बारे में पर्याप्त रूप से जानते/जानती हों कि समस्या क्या है, क्या उपचार उपलब्ध हैं, वे कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं, और क्या गलत हो सकता है, जिससे कि आप अपने डॉक्टर की मदद से अपने लिए सबसे अच्छे इलाज का चयन कर सकें।

सहायता के लिए पूछें

यदि आप निःशुल्क 1800 33 00 66* (सोमवार से शुक्रवार 8:00 बजे सुबह से लेकर 8:00 बजे रात के बीच, ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी मानक समय) पर National Continence Helpline को कॉल करें, तो प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध हैं:

- जानकारी;
- सलाह; और
- पत्रका।

यदि आपको अंग्रेज़ी बोलने या समझने में कठिनाई होती है, तो आप 13 14 50 पर निःशुल्क टेलीफोन दुभाषिया सेवा के माध्यम से हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते/सकती हैं। फोन का उत्तर अंग्रेज़ी में दिया जाएगा, इसलिए जो भाषा आप बोलते/बोलती हैं, उसका नाम फोन पर बताएँ और प्रतीक्षा करें। आपको अपनी भाषा बोलने वाले दुभाषिए के साथ जोड़ा जाएगा। आप दुभाषिए को बताएँ कि आप National Continence Helpline को 1800 33 00 66 पर कॉल करना चाहते/चाहती हैं। फोन पर जुड़ने के लिए प्रतीक्षा करें और दुभाषिया आपको एक संयम नर्स सलाहकार के साथ बात करने में सहायता करेगा। सभी कॉलें गोपनीय रहती हैं।

bladderbowel.gov.au या continence.org.au/other-languages देखें।

* मोबाइल फोन से की गई कॉलों का शुल्क लागू दरों पर लगता है।

